

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाले तथाकथित पत्रकार व उसके अन्य 02 साथियों को अवैध शराब सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं शराब तस्करोँ के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाले तथाकथित पत्रकार व उसके अन्य 02 साथियों को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं शराब तस्करोँ के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 26.05.2021 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा बकेवर चौराहे पर संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चैकिंग की जा रही थी । तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पटेलनगर में 03 व्यक्ति अवैध शराब बेच रहे है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बकेवर पुलिस मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची तो देखा कि 03 व्यक्ति एक ड्रम के अन्दर बोरे में रखकर शराब बेच रहे है । जैसे ही उन व्यक्तियों ने पुलिस टीम को देखा तो उनके द्वारा भागने का प्रयास करने लगे । जिन्हें पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा करते हुए घेरकर पकड लिया गया ।

पकडे गये व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 53 क्वावर्टर देशी शराब बरामद की गयी । जिसके सम्बन्ध में उनसे लाइसेंस मांगा गया तो दिखाने में असमर्थ रहे तथा बताया कि हम लोग सस्ती शराब खरीदकर उसे अधिक दामों में बेच देते है । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी जुटाई गयी तो उनमें से एक अभियुक्त थाना क्षेत्रांतर्गत पत्रकारिता भी करता है । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 235/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शिवम तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी पटेलनगर बकेवर इटावा
2. श्याम जी तिवारी पुत्र राजू तिवारी निवासी पटेलनगर बकेवर इटावा
3. रामजी तिवारी पुत्र राजू तिवारी निवासी पटेलनगर बकेवर इटावा (तथाकथित पत्रकार)

बरामदगी:-

1. 53 क्वाटर देशी नाजायज शराब
2. कुल 2050 रुपये ।

पुलिस टीम:- व0उ0नि0 संजय कुमार दूबे प्रभारी थाना बकेवर, उ0नि0 प्रेमचन्द, का अंकित चौधीरी, का0 अरुण कुमार, का0 अरविन्द कुमार, का0 अवनीश कुमार

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा